

हे याकूब के परिवार, तू यहोवा का अनुसरण कर।

וְעַנְנִים וּמִקְדָּם מְלֵאוֹ כִּי יַעֲקֹב בֵּית עַמּוּנָה נִתְּשָׁה כִּי 6
 और-भाग्य-बताने-वाले पूर्व-से वे-भरे-हैं क्योंकि
[H4390](#) [H3290](#) [H5203](#)

וּבְיַדְּי וּבְיַדְּי וּבְיַדְּי וּבְיַדְּי
 वे-प्रसन्न-होते-हैं परदेशियों-के और-सन्तानों-में जैसे-पलिशती
[H5237](#) [H3206](#) [H6430](#)

हे यहोवा! तूने अपने लोगों का त्याग कर दिया है। तेरे लोग पूर्व के बुरे विचारों से भर गये हैं। तेरे लोग पलिशतियों के समान भविष्य बताने का यत्न करने लगे हैं। तेरे लोगों ने पूरी तरह से उन विचित्र विचारों को स्वीकार कर लिया है।

אֶרֶצוֹ וְתַמְלֵא וְתַמְלֵא לְאֶזְרָתוֹ קִצָּה וְאִין וְזָהָב כֶּסֶף אֶרֶצוֹ וְתַמְלֵא 7
 उसका-देश और-भर-गया उसके-खज़ानों-का अन्त और-नहीं-है और-सोने-से चांदी-से उसका-देश और-भर-गया
[H0776](#) [H4390](#) [H0214](#) [H3069](#) [H2091](#) [H3701](#) [H0776](#) [H4390](#)

וּסִיָּם וְאִין וְאִין וְאִין
 उसके-रथों-का अन्त और-नहीं-है घोड़ों-से
[H4818](#) [H0369](#)

तेरे लोगों की धरती दूसरे देशों के सोने चाँदी से भर गयी है। वहाँ अनगिनत खजाने हैं। तेरे लोगों की धरती घोड़ों से भरपूर है। वहाँ बहुत सारे रथ भी हैं।

וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה 8
 बनाया जो वे-दण्डवत-करते-हैं अपने-हाथों-के काम-को मूर्तियों-से उसका-देश और-भर-गया
[H7812](#) [H3027](#) [H4639](#) [H0457](#) [H0776](#) [H4390](#)

וְעָשָׂה וְעָשָׂה
 उनकी-उंगलियों-ने
[H0676](#)

उनकी धरती पर मूर्तियाँ भरी पड़ी हैं, लोग जिनकी पूजा करते हैं। लोगों ने ही इन मूर्तियों को बनाया है और वे ही उन की पूजा करते हैं।

וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח 9
 और-झुक-गया और-झुक-गया और-झुक-गया और-झुक-गया और-झुक-गया और-झुक-गया और-झुक-गया और-झुक-गया
[H5375](#) [H0408](#) [H0376](#) [H8213](#) [H0120](#) [H7817](#)

लोग बुरे से बुरे हो गये हैं। लोग बहुत नीच हो गये हैं। हे परमेश्वर, निश्चय ही तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा, क्या तू ऐसा करेगा परमेश्वर के शत्रु भयभीत होंगे

וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה וְעָשָׂה 10
 उसके-प्रताप-के और-से-वैभव यहोवा-के भय से-सामने मिट्टी-में और-छिप-जा चट्टान-में घुस
[H1347](#) [H1926](#) [H3068](#) [H6343](#) [H6440](#) [H6083](#) [H2934](#) [H6697](#) [H0935](#)

जा, कहीं किसी गक्रे में या किसी चट्टान के पीछे छुप जा! तू परमेश्वर से डर और उसकी महान शक्ति के सामने से ओझल हो जा!

וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח 11
 अकेला यहोवा और-ऊंचा-किया-जाएगा मनुष्यों-की ऊंचाई और-झुकेगा नीची-होगी मनुष्य-की घमण्ड-की आंखें
[H0905](#) [H3068](#) [H7682](#) [H0376](#) [H7312](#) [H7817](#) [H8213](#) [H0120](#) [H1365](#)

וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח
 उस में-दिन
[H1931](#) [H3117](#)

अहंकारी लोग अहंकार करना छोड़ देंगे। अहंकारी लोग धरती पर लाज से सिर नीचे झुका लेंगे। उस समय केवल यहोवा ही ऊँचे स्थान पर विराजमान होगा।

וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח וְיִשָּׂח 12
 उठे-हुए सब-और-पर और-ऊंचे घमण्डी सब-पर सेनाओं-के यहोवा-का दिन क्योंकि
[H5375](#) [H3605](#) [H1343](#) [H3605](#) [H3068](#) [H3117](#)

וְיִשָּׂח
 और-नीचे-किए-जाएंगे
[H8213](#)

यहोवा ने एक विशेष दिन की योजना बनायी है। उस दिन, यहोवा अहंकारियों और बड़े बोलने वाले लोगों को दण्ड देगा। तब उन अहंकारी लोगों को साधारण बना दिया जायेगा।

13 **וְעַל-כָּל-אֲרָוֵי הַלְבָּנוֹן הַרְרָמִים וְהַנְּשָׂאִים וְעַל-כָּל-אֲלֹנֵי הַבְּשָׁן:**
 और-पर सब-लम्बे देवदारों सब-बांजवृक्षों और-उठे-हुए ऊंचे लबानोन-के देवदारों सब-बांजवृक्षों और-पर सब-बांजवृक्षों बांजवृक्षों-के
[H1316](#) [H0437](#) [H3605](#) [H5375](#) [H3844](#) [H0730](#) [H3605](#)

वे अहंकारी लोग लबानोन के लम्बे देवदार वृक्षों के समान हैं। वे बासान के बांजवृक्षों जैसे हैं किन्तु परमेश्वर उन लोगों को दण्ड देगा।

14 **וְעַל-כָּל-הַהַרְרִים הַרְרָמִים וְעַל-כָּל-הַגְּבְעוֹת הַנְּשָׂאוֹת:**
 और-पर सब-पर्वतों और-पर सब-पहाड़ियों उठी-हुई उठी-हुई
[H5375](#) [H1389](#) [H3605](#) [H2022](#) [H3605](#)

वे अहंकारी लोग ऊँची पहाड़ियों जैसे लम्बे और पहाड़ों जैसे ऊँचे हैं।

15 **וְעַל-כָּל-מְגַדְלֵי גְבֻהַ וְעַל-כָּל-חֻמְהָ בְּצוּרָה:**
 और-पर सब-गुम्मत और-पर सब-दीवार दृढ़
[H1219](#) [H2346](#) [H3605](#) [H1364](#) [H4026](#) [H3605](#)

वे अहंकारी लोग ऐसे हैं जैसे लम्बी मीनारों और ऊँचा तथा मजबूत नगर परकोटा हो। किन्तु परमेश्वर उन लोगों को दण्ड देगा।

16 **וְעַל-כָּל-אֲנִיּוֹת תְּרָשִׁישׁ וְעַל-כָּל-שְׂכִינֹת הַחֲמָדָה:**
 और-पर सब-जहाज़ों और-पर सब-तर्शाश-के चित्रों मनभावने
[H7914](#) [H3605](#) [H8659](#) [H0591](#) [H3605](#)

वे अहंकारी लोग तर्शाश के विशाल जहाज़ों के समान हैं। इन जहाज़ों में महत्वपूर्ण वस्तुएँ भरी हैं। किन्तु परमेश्वर उन अहंकारी लोगों को दण्ड देगा।

17 **וְשָׁח וְגִבְעוֹת הָאָרֶם וְשֹׁפֵל רֹם וְאֲנָשִׁים וְנִשְׁבָּב יְהוָה לְבָרוֹ**
 और-झुकेगा और-घमण्ड मनुष्य-का और-नीचा-होगा और-ऊंचाई और-मनुष्यों-की और-ऊंचा-किया-जाएगा यहोवा अकेला
[H0905](#) [H3068](#) [H7682](#) [H0376](#) [H7312](#) [H8213](#) [H0120](#) [H1365](#) [H7817](#)

בְּיוֹם הַהוּא:
 में-दिन उस
[H1931](#) [H3117](#)

उस समय, लोग अहंकार करना छोड़ देंगे। वे लोग जो अब अहंकारी हैं, धरती पर नीचे झुका दिए जायेंगे। फिर उस समय केवल यहोवा ही ऊँचे विराजमान होगा।

18 **וְהָאֱלִילִים וְכָלִיל יִקְלָה:**
 और-मूर्तियाँ और-तरह पूरी-रहेगी जाती-रहेगी
[H2498](#) [H3632](#) [H0457](#)

सभी मूर्तियाँ झूठे देवता समाप्त हो जायेंगी।

19 **וּבְאוֹר בְּמַעְרֹת צְרָיִם וּבְמַחְלֹת עֶפְרָי מִפְּנֵי פֶחַד יְהוָה וּמַהֲרָר**
 और-वे-घुसेंगे और-वे-घुसेंगे में-गुफाओं की-चट्टानों-के मिट्टी-के से-सामने भय यहोवा-के और-से-वैभव और-सोने-की
[H1926](#) [H3068](#) [H6343](#) [H6440](#) [H6083](#) [H4247](#) [H6697](#) [H4631](#) [H0935](#)

וְאֲנָנוּ בְּקוֹמוֹ לְעָרִץ הָאָרֶץ:
 उसके-प्रताप-के जब-वह-उठेगा कंपनी पृथ्वी-को
[H0776](#) [H6206](#) [H1347](#)

लोग चट्टानों, गुफाओं और धरती के भीतर जा छिपेंगे। वे यहोवा और उसकी महान शक्ति से डर जायेंगे। ऐसा उस समय होगा जब यहोवा धरती को हिलाने के लिए खड़ा होगा।

20 **בְּיוֹם הַהוּא יִשְׁלַח הָאָרֶם אֶת-אֱלִילָיו כִּסְפוֹ וְאֶת-אֱלִילָיו וְהָבֹו אֶשֶׁר**
 में-दिन उस फेंक-देगा मनुष्य -को मूर्तियाँ और-चांदी-की अपनी-चांदी-की मूर्तियाँ और-सोने-की जो
[H2091](#) [H0457](#) [H0853](#) [H3701](#) [H0457](#) [H0853](#) [H0120](#) [H7993](#) [H1931](#) [H3117](#)

עָשָׂו-לֹא לְהַשְׁתַּחֲוֹת לֹא לְעֵשָׂו לְחַפְּרוֹ לְחַפְּרוֹ וְלְעֵשָׂו לְחַפְּרוֹ:
 उन्होंने-बनाया-अपने-लिए दण्डवत-करने-के-लिए छछुंदरों-को छछुंदर और-चमगादड़ों-को
[H5847](#) [H6512](#) [H2661](#) [H7812](#)

उस समय, लोग अपनी सोने चाँदी की मूर्तियों को दूर फेंक देंगे। (इन मूर्तियों को लोगों ने इसलिये बनाया था कि लोग उनको पूज सकें।) लोग उन मूर्तियों को धरती के उन बिलों में फेंक देंगे जहाँ चमगादड़ और छछूंदर रहते हैं।

וַיִּהְיוּ और-से-वैभव H1926	יְהוָה यहोवा-के H3068	פָּחַד भय H6343	מִפְּנֵי से-सामने H6440	הַסִּלְעִים चट्टानों-की H5553	וּבְסַעֲפֵי और-में-दरारों H5585	הַצְּרוּרִים चट्टानों-की H6697	בְּנִקְרוֹת में-दरारों H5366	לְבוֹא घुसने-के-लिए H0935	21
---	---	---------------------------------------	---	---	---	--	--	---	----

הָאָרֶץ: पृथ्वी-को H0776	לְעָרָן कंपाने H6206	בְּקוֹמוֹ जब-वह-उठेगा	נְאוֹנוֹ उसके-प्रताप-के H1347
--	--	--------------------------	---

फिर लोग चट्टानों की गुफाओं में छुप जायेंगे। वे यहोवा और उसकी महान शक्ति से डरकर ऐसा करेंगे। ऐसा उस समय घटित होगा जब यहोवा धरती को हिलाने के लिये खड़ा होगा। इस्राएल को परमेश्वर का विश्वास करना चाहिये

הוא: वह H1931	נִחְשָׁב गिना-जाए H2803	בְּמִה किस-में H4100	כִּי- क्योंकि-	בְּאֶפֶס उसकी-नाक-में-है H0639	נְשָׁמָה श्वास H5397	אֲשֶׁר जिसकी	הָאָדָם मनुष्य H0120	מִן- से-	לְכֶם अपने-लिए	חָדְלוּ छोड़-दो H2308	22
-------------------------------------	---	--	-------------------	--	--	-----------------	--	-------------	-------------------	---	----

פ
פ

ओ इस्राएल के लोगों तुम्हें अपनी रक्षा के लिये अन्य लोगों पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिये। वे तो मनुष्य मात्र है और मनुष्य मर जाता है। इसलिये, तुझे यह नहीं सोचना चाहिये कि वे परमेश्वर के समान शक्तिशाली है।